



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 487]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 1979/अग्राहायण 1, 1901

No. 487]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 1979/AGRAHAYANA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1979

क्र० आ० 747—(घ)/18ए/प्रि०वि०वि०आ०/79—भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० 725(अ) 18ए/प्रि०वि०वि०आ०/72, तारीख 25 नवम्बर, 1972 द्वारा मैसर्स इण्डिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का 24 नवम्बर, 1977 तक की, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए एक प्रबन्ध बोर्ड की प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० क्र० आ० 630(अ) 18ए/प्रि०वि०वि०आ०/77, तारीख 24 अगस्त, 1977 द्वारा उक्त आदेश की उपांतरित किया गया था और भारत का औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उक्त उपक्रम का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० क्र० आ० 784 (अ) 18ए/प्रि०वि०वि०आ०/77, तारीख 24 नवम्बर, 1977 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 24 नवम्बर 1979 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, के लिए बढ़ा दी गई थी;

और, अब, केन्द्रीय सरकार की राय में उक्त आदेश की अवधि 24 नवम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ा या जाना लोकहित में समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश करती है कि प्रथम उल्लिखित आदेश यथा उल्लिखित द्वितीय आदेश द्वारा उपांतरित और अंतिम उल्लिखित आदेश द्वारा विस्तारित रूप में, 24 नवम्बर, 1980 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, की अवधि के लिए और प्रभावी रहेगा।

[क्र० सं० 25/26/72-सी० यू० सी०]

## MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

### ORDERS

New Delhi, the 22nd November, 1979

S.O. 747(E)/18A/IDRA/79.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. 725(E)/18A/IDRA/72, dated the 25th November, 1972, a Board of Management was authorised to take over the whole of the industrial undertaking known as Messrs. India Machinery Company Limited, Howrah, for a period of five years upto and inclusive of 24th November, 1977;

And, whereas, the said order was modified by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 630 (E)/18A/IDRA/77, dated the 24th August, 1977, and the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, was authorised to take over the management of the said undertaking;

And, whereas, the duration of the said order was extended, by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 784 (E)/18A/IDRA/77, dated the 24th November, 1977, for a further period upto and inclusive of 24th November, 1979 ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the duration of the said order should be extended for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1980 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the order first mentioned, as modified by the order second mentioned and as extended by the order last mentioned, shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 24th November, 1980.

[F. No. 25/26/72-CUC]

का० प्रा० 748(अ)/18अ/आई०डी०आर०ए०/79.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० प्रा० 85 (ई) 18अ/आई०डी०आर०ए०/78 तारीख 10-2-78 में निम्नलिखित और संशोधन करना है अर्थात् —

उक्त आदेश में—

(क) “अध्यक्ष” शीर्षक के नीचे पैरा 2 में, मद्र 1 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“1. मेजर जनरल परमाणु चौधरी”

(ख) “अध्यक्ष” शीर्षक के नीचे पैरा में, मद्र 2 और 3 और 4 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“2. श्री आर० के० आनन्द,  
डाइरेक्टर, उद्योग मंत्रालय,  
औद्योगिक विकास विभाग।

3. श्री के० मार्ग बन्धु

4. श्री एस० सुन्दराराजन”।

[का० सं० 2(1)/78-सी०ए०सी०]

S.O. 748(E)/18A/IDRA/79.—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 85(E)/18A/IDRA/78 dated the 10th February, 1978, namely :—

In the said Order (1) under the heading “Chairman”, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

“1. Major General Premangshu Choudry”;

(2) under the heading “Members” for serial numbers 2, 3 and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries should be substituted, namely :—

“2. Shri R. K. Anand,  
Director, Ministry of Industry,  
Department of Industrial Development.

3. Shri K. Marga Banthu.

4. Shri S. Sundararajan”.

[F. No. 2(1)/78-CUC]

का० प्रा० 749 (अ)/18अ/आई०डी०आर०ए०/79.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत के मूल-पूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० प्रा० 266अ/18अ/आई०डी०आर०ए०/78 दिनांक 13 अप्रैल, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त आदेश में सदस्य शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् :—

“4. श्री एस० सुन्दराराजन,  
मैनेजर (टेक्नीकल),  
भारतीय औद्योगिक बिल निगम,  
बटजी अन्तराष्ट्रीय सेंटर (तीसरी मंजिल)  
33-ए, चौरंगी रोड,  
कलकत्ता-700071.”

[2(24)/76-सी०ए०सी०]

बी० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 749(E)/18A/IDRA/79.—In exercise of the powers conferred by Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India, in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 266(E)/18A/IDRA/78 dated 13 April 1978, namely :—

In the said Order under the heading “Members” :— (1) For serial No. 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted namely :—

“4. Shri S. Sundararajan,  
Manager (Technical), Industrial Finance Corpn. of  
India,

Chatterjee International Centre, 3rd Floor,  
33-A, Chowringhee Road,  
Calcutta-700071.”

[F. No. 2(24)/76-CUC]

B. ROY, Jt. Secy.